

फैक्ट्रियों में बनाया जाता था नकली कीटनाशक, 2 गिरफ्तार

Edited by सरोज सिंह | नवभारत टाइम्स Updated: 3 Aug 2021, 1:04 pm

पुलिस अफसर के मुताबिक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूपीएल की तरफ से पप्पू कुमार शर्मा ने मुंडका थाने में नकली कीटनाशक बनाए जाने की शिकायत की थी। डीआईयू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मुंडका के हिरणकूदना गांव में नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री चल रही है।

ष संवाददाता, मुंडका

मुंडका इलाके में [नकली कीटनाशक](#) बनाने की दो फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस का दावा है कि फैक्ट्री से काफी मात्रा में नकली कीटनाशक और उसे बनाने की मशीन और दूसरे सामान मिले हैं। इसके अलावा, यहां कई तरह की फसलों के बीज भी बेचे जा रहे थे। कार्रवाई में पुलिस ने दोनों फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपियों की पहचान मोहन लाल और अमन के तौर पर हुई है। जांच में पता चला कि इस धंधे में बिहार के सहरसा निवासी मोहनलाल, दिल्ली के छतरपुर निवासी अमन, पंजाब के भटिंडा निवासी विजय और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी राजेंद्र शामिल हैं। सभी पिछले दो महीने से नकली कीटनाशक बनाने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने 48 हजार रुपये महीने पर हिरणकूदना गांव में दो गोदामों को किराए पर लिया था। पुलिस को अभी दो लोगों की तलाश है जो कच्चे माल की सप्लाई करते थे।

पुलिस अफसर के मुताबिक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूपीएल की तरफ से पप्पू कुमार शर्मा ने मुंडका थाने में नकली कीटनाशक बनाए जाने की शिकायत की थी। डीआईयू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मुंडका के हिरणकूदना गांव में नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री चल रही है। 31 जुलाई को पुलिस की टीम ने फैक्ट्रियों पर छापा मारा। पुलिस ने कीटनाशक के साथ-साथ इसे बनाने में इस्तेमाल मशीन और कच्चा माल जब्त कर लिया। पकड़े गए फैक्ट्री मालिक मोहन लाल ने बताया कि उसके दामाद नवीन की इंद्रा मार्केट तीस हजारी में कीटनाशक की दुकान है। अमन भी इसी बाजार में कीटनाशक की दुकान है।

मोहन लाल का मोमबत्ती का कारोबार था। उसका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात नकली कीटनाशक के सप्लायर विजय और राजेंद्र से हुई। फिर सहमति बनी कि विजय कच्चे माल की आपूर्ति करेगा, जबकि पैकेजिंग का काम राजेंद्र करेगा। मोहन लाल और अमन कीटनाशक के उत्पादन का काम देखेंगे। इस कारोबार में मोहन लाल और अमन ने 9 लाख का निवेश किया था। पुलिस को विजय और राजेंद्र की तलाश है। दोनों पर पहले से एक-एक मामले दर्ज हैं।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/crime/2-arrested-in-making-of-artificial-pesticide-in-factory/articleshow/84996047.cms>